

Corporate Office: Plot No.18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana (India) • Tel.: +91-124-4566300, 4786000  
E-mail: devyani@dil-rjcorp.com • Website: www.dil-rjcorp.com;  
CIN: L15135DL1991PLC046758

June 11, 2024

To,

<b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> Exchange Plaza, Block G, C/1, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Email: <a href="mailto:cm1ist@nse.co.in">cm1ist@nse.co.in</a> <b>Symbol: DEVYANI</b>	<b>BSE Limited</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Email: <a href="mailto:corp.relations@bseindia.com">corp.relations@bseindia.com</a> <b>Security Code: 543330</b>
--	---

**Subject: Newspaper Advertisement regarding 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company to be held through Video Conferencing / Other Audio Visual Means**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, read with other related circulars including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, copies of the newspaper advertisement published in "Business Standard" Newspaper in English and Hindi editions on June 11, 2024, regarding convening of 33<sup>rd</sup> AGM of the Company on **Friday, July 5, 2024** through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means facility are enclosed. The same is also available on website of the Company at [www.dil-rjcorp.com](http://www.dil-rjcorp.com).

You are requested to kindly take the same on record.

Yours faithfully,

**For Devyani International Limited**

**Pankaj Virmani**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

*Encl: As above*



**गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड**  
**Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited**  
 (एन एचएन का अंग) Govt. of India Undertaking, एन एचएन / Ministry of Defence  
 Regd and Corp Office: GRSE BHAVAN, 01, Garden Reach Road, Kolkata - 700 024  
 Web: www.grse.in, (CIN: L3511WB19340G007891)

**E-TENDER NOTICE FOR ONLINE BIDDING**  
**NIT NO.: PUR/ASK/PRESS/GHD MHD FTNGS/LTA13/STOCK/RA-3016**  
**Sub: Supply of GHD/MHD Fittings for Long Term Agreement**  
**Due Date: 21 days from date of publication**

1. Details will be available in GRSE e-Procurement portal <https://eprocuregrse.co.in> and websites <http://www.grse.in> & <https://eprocure.gov.in/cppp/>  
 2. Any addendum/corrigendum to this tender enquiry will be published in above websites only. No separate paper advertisement will be issued.

"In Pursuit of Excellence and Quality in Shipbuilding"  
 Visit us at: www.grse.in

**MUTHOOT FINCORP LIMITED**  
 Registered Office: Muthoot Centre TC No.27/3022, Punnem Road, Trivandrum, Kerala - 695 001.  
 Chennai Office: 710 A & 711 A, 7th Floor, Phase-2, Spence Plaza, Mount Road, AnnaSalai, Chennai - 600 002.

**APPENDIX -IV (Rule 8(1)) Possession Notice (For Immovable Property)**

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of the Muthoot Fincorp Limited (MFL), under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (ACT NO.54 OF 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice to below mentioned Borrowers / Guarantor(s). After completion of 60 days from date of receipt of the said notice, The Borrower/s / Guarantor/s having failed to repay the amount, notices hereby given to the Borrower/s / Guarantor/s and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on them under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this.

S. No.	Name of Borrower / Co-Borrower / Guarantor	Date of Demand Notice	Total O's Amount (Rs.) Future Interest Applicable	Description of Secured Asset(s) Immovable Property (ies)	Date of Possession
1.	(Loan A/c No.MFLDELSECUL00005007470) Mr. Sanjay Kumar (Borrower) Ms. Sunita (Co-Borrower) Both Residing at: Mahampur Baghpatt, Landmark -Baghpatt, Meerut, Uttar Pradesh- 250515.	11.03.2024	₹ 28,23,593.94/- (Rupees Twenty-Eight Lakhs Twenty-Three Thousand Five Hundred Ninety Three and Ninety-Four paise Only)	Property bearing Khazra No.139, Mahampur Tehsil Khekda Distt. Bagpat, Meerut, Uttar Pradesh- 250515, India in the total land admeasuring 373.74 Sq.meters. Boundaries of the property: North: Plot of Dharmendra, South: Primary Pathasala, East: Plot of Kusam, West: Road 15ft wide and House of Sanjay	06.06.2024

The Borrower/s / Guarantor/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Muthoot Fincorp Limited (MFL), for an above mentioned demanded amount and further interest thereon.  
**Place: Uttar Pradesh, Date : 11.06.2024**  
 Sd/- Authorised Officer For Muthoot Fincorp Limited (MFL)

**BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT**  
 (AN ISO 9001 : 2000 Certified Organization)  
 Habibganj, Bhopal 462024  
 E-mail : bsdsm@gmail.com, Phone : 0755-2478250-53, Fax : 0755-2450896  
 Ref No. : 03 Dated : 10.06.2024

**EOI NOTICE**

Expression of interest is invited by Bhopal Sahakari Dugdha Sangh for End to end consultancy service for availing carbon credits from thermal energy generation projects through biomass in Bhopal, Pachama and Betul. The documents containing the terms and conditions can be purchased online & downloaded through following website <http://www.mptenders.gov.in> from 11.06.2024 onwards. The offer will be opened in the office of the undersigned as mentioned in tender time schedule(key date). The detailed Tender Form can be seen (only for reference) at our HO website : [www.sanchibhopal.com](http://www.sanchibhopal.com). The Chief Executive Officer Bhopal Sahakari Dugdh Sangh Maryadit has all the right to accept or reject any or all bids.

Name of item	EMD (Rs.)	Tender Fee (Rs.)	Bid Submission Due Date & Time	Technical Bid Opening Date & Time
End to end consultancy service for availing carbon credits from thermal energy generation Projects through biomass in Bhopal, Pachama and Betul.	Rs. 10,000/-	Rs.500/-	01.07.2024 03:00 PM	02.07.2024 03:00 PM

M.P. Madhyam/114768/2024 CHIEF EXECUTIVE OFFICER

**Circle Sastra Centre, 3rd Floor, LIC Building, Sub City Centre Reti Stand, Udaipur, Rajasthan, Phone: 0294 - 268030 E-mail: cs8328@pnb.co.in**

**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY**

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, read with proviso to Rule 8(6) & 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical symbolic possession of which has been taken by the Authorised officer of Punjab National Bank Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is basis" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower(s) and guarantor(s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the below against the respective property. SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Name of the Branch	Description of the immovable property mortgaged / Owner's Name (Mortgagors of property/ies)	(A) Date of Demand notice u/s 13(2) of SARFAESI Act, 2002	(B) Reserve Price	(C) EMD/ Last Date	(D) Bid Increase Amount	(E) Inspection Date & Time	Date/Time of E-auction	Details of the encumbrances known to the secured creditors
005200-BHLWARA, BHOPAL GANJ	Residential Plot No. 2, Araji No. 1547/3, 1547/4 situated at Revenue village -Hamirgarh, Gram Panchayat Hamirgarh, District: Bhiwara, Rajasthan 311001 admeasuring area 881.25sqft. In the name of Shri Mishri Lal Lohar S/o Shri Nanda Lohar (since deceased) Bounded by: East: Plot No. 3, West: Plot No. 1, North: Road, South: Other Araji.	A) 14.11.2023	A) Rs. 976500.00	B) Rs. 97650.00 (10.07.2024)	C) Rs. 20,000/- (Twenty Thousand only)	D) 09.07.2024 From 11:00 AM to 4:00 PM	11.07.2024 From 11:00 AM to 04:00 PM	Not Known
Shri Mishri Lal Lohar S/o Shri Nanda Lohar (Since Deceased)		B) Rs.1538322.00 as on 31.10.2023 plus payable with further interest and expenses payment paid in full.						
1. (Borrower) Shri Mishri Lal Lohar S/o Shri Nanda Lohar (Since Deceased)		C) 06.03.2024						
2. (Co-Borrower & Legal heir of deceased) Shri Kailash Chandra Lohar S/o Shri Mishri Lal Lohar								
3. (Co-Borrower & Legal heir of deceased) Shri Mukesh Lohar S/o Shri Mishri Lal Lohar All are Resi. at: H. No. 2, Near Hada Resort, Hamirgarh, Bhiwara, Rajasthan 311028. 4. (Guarantor) Shri Naresh Kumar Tailor S/o Shri Ashok Kumar Tailor (Jilgali, Hamirgarh, Bhiwara Rajasthan 311028)								
	Auction Ref No. PUNB005222801							
	TERMS AND CONDITIONS- The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove has been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 3. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website <a href="https://www.mstccommerce.com">https://www.mstccommerce.com</a> on above mentioned date as per timings mentioned in the table. 4. For detailed terms and conditions of the sale, please refer 1) <a href="http://www.ibapi.in">http://www.ibapi.in</a> , 2) <a href="http://www.mstccommerce.com/">http://www.mstccommerce.com/</a> , 3) <a href="http://www.pnbIndia.in">www.pnbIndia.in</a> , 4) <a href="https://eprocure.gov.in/epubish/app">https://eprocure.gov.in/epubish/app</a>							
	STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002							
	Date: 10.06.2024; Place: Udaipur							
	Authorised Officer, Punjab National Bank, Secured Creditor							

**DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED**  
 Registered Office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110 020; Tel: +91-11-41706720  
 Corporate Office: Plot No. 18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana  
 Tel: +91-124-4566300, 4786000  
 E-mail: compansysecretary@dil-rjcorp.com; Website: www.dil-rjcorp.com  
 Corporate Identity Number: L15135DL1994PLC046758

**NOTICE TO THE MEMBERS OF 33<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")**

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, read with other related circulars including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars"), permitted holding of AGM through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/ OAVM") facility, without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules made thereunder, MCA Circulars and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of Devyani International Limited ("the Company") decided to convene 33<sup>rd</sup> AGM of the Company on **Friday, July 5, 2024 at 11:00 A.M. (IST)** through VC/ OAVM facility, without physical presence of the Members at a common venue, to transact the business set-out in the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM.

In compliance with the provisions of the MCA Circulars and the SEBI Listing Regulations, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and other related SEBI circulars, including Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, Notice of 33<sup>rd</sup> AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024, will be sent by e-mail to those Members, whose e-mail address are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participants ("DPs").

Members can join and participate in the 33<sup>rd</sup> AGM through VC/ OAVM facility only. Members participating through VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act. Detailed instructions for joining 33<sup>rd</sup> AGM shall be provided in the Notice of the 33<sup>rd</sup> AGM.

Notice of 33<sup>rd</sup> AGM and Annual Report will also be made available on websites of the Company ([www.dil-rjcorp.com](http://www.dil-rjcorp.com)), Stock Exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and National Securities Depository Limited ("NSDL") ([www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)).

The Company is providing the facility of remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) to all its Members, to cast their vote on all resolutions set-out in the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM. Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM are provided in the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM.

Members holding shares in demat form whose e-mail address are not registered with their DPs, are requested to register their e-mail address with their respective DPs only, for receiving the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM, Annual Report and login details for joining 33<sup>rd</sup> AGM through VC/ OAVM facility including e-voting. The registered e-mail address will also be used for sending future communications. Further, Members who hold shares in physical form and have not registered their e-mail IDs with the Company or the RTA, can register their e-mail address for receiving the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM, Annual Report and login details for joining 33<sup>rd</sup> AGM through VC/ OAVM facility including e-voting, by sending a request to the Company at [compansysecretary@dil-rjcorp.com](mailto:compansysecretary@dil-rjcorp.com) or RTA viz. KFin Technologies Limited at [einward.ris@kfinetech.com](mailto:einward.ris@kfinetech.com) (contact no. 1800-309-4001) by providing their name, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back) and self-attested scanned copy of PAN and Aadhaar Card.

Any person, who acquires share(s) and becomes Member of the Company after the date of dispatch of Notice of the 33<sup>rd</sup> AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. **Friday, June 28, 2024**, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM or by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

In case of any query regarding e-voting, Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, at 022-48867000 or send a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or write an e-mail to Compliance Officer of the Company at [compansysecretary@dil-rjcorp.com](mailto:compansysecretary@dil-rjcorp.com). The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the MCA Circulars and other applicable Circulars.

For and on behalf of  
 Devyani International Limited  
 Sd/-  
**Pankaj Virmani**  
 Company Secretary & Compliance Officer

Date: June 10, 2024  
 Place: Gurugram

**JALPURA KHURJA POWER TRANSMISSION Limited**  
 Registered Office: Plot No. 181, Ground Floor, Block - K, Mangolpuri, Delhi - 110083

**NOTICE**

Petition No. 2079 of 2024  
 (Under sub-section (2)(i) of Section 15 of the Electricity Act, 2003)  
 In the matter of Application by Jalpura Khurja Power Transmission Limited for Grant of Intra-State Transmission License within Uttar Pradesh

1. Jalpura Khurja Power Transmission Limited (JKPTL), which is incorporated under the Companies Act, 2013, has made an application before the Hon'ble Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC), Lucknow under section 14, 15, 86 (1)(d) of the Electricity Act, 2003 for grant of Transmission License in respect of the transmission lines, sub-stations and other transmission assets, the details of which are given below:

S. No.	Scope of the Transmission Scheme	SCOD from Effective Date (05.04.2024)
A	Construction of 400/220 kV, 2x500 MVA GIS substation Metro Depot (Gr. Noida) with associated lines	18 Months
1	Construction of 400/220 kV, 2x500MVA GIS substation Metro Depot (Gr. Noida) (along with 125MVAR Bus Reactor) • 400 kV, 500 MVA ICT Bays: 02 Nos. • 400 kV Feeder Bays: 02 Nos. • 400 kV Bus Reactor Bay: 01 Nos. • 400 kV Bus Coupler Bay: 01 Nos. • 220 kV, 500 MVA ICT Bays: 02 Nos. • 220 kV Inter Connecting (220kV S/S Metro Depot) Bays: 02 Nos. • 220 kV Future Bays: 02 Nos. • 220 kV Bus Coupler Bay: 01 Nos.	
2	LILO of one circuit of 400 kV Greater Noida (765 kV) - Palli, Gr. Noida DC line at 400/220 kV GIS substation Metro Depot (Gr. Noida) (LILO Line on 400kV Double Circuit Monopole & Twin HTLS conductor along with OPGW stringing work)	
B	Construction of 400/220 kV, 2x500 MVA GIS substation Jalpura with associated lines	18 Months
1	Construction of 400/220 kV, 2x500MVA GIS substation Jalpura (Gr. Noida) (along with 125MVAR Bus Reactor) • 400 kV, 500 MVA ICT Bays: 02 Nos. • 400 kV Feeder Bays: 02 Nos. • 400 kV Bus Reactor Bay: 01 Nos. • 400 kV Bus Coupler Bay: 01 Nos. • 220 kV, 500 MVA ICT Bays: 02 Nos. • 220 kV Inter Connecting (220kV S/S Jalpura) Bays: 02 Nos. • 220 kV Future Bays: 02 Nos. • 220 kV Bus Coupler Bay: 01 Nos.	
2	400 kV Jalpura - THDC TPS Khurja DC line (Twin HTLS conductor and Monopole/Narrow Base Tower/ Conventional Tower and OPGW stringing work)	

Note:  
 UPPTCL to provide land for the construction of 400/220kV GIS substation at Metro Depot & Jalpura and shall be handed over to JKPTL on as is where basis.  
 2. A copy of the Transmission License application along with its annexures, enclosures and other documents filed before the Hon'ble UPERC is available on the web site, the URL of which being [tatapower.com/pdf/investor-relations/Application\\_for\\_Grant\\_of\\_Transmission\\_License.pdf](http://tatapower.com/pdf/investor-relations/Application_for_Grant_of_Transmission_License.pdf), for access by any person. The application is also available at the office of JKPTL at Shatabdi Bhawan, B-12 & 13, Sector 4, Noida, UP-201301 with Mr. Vidyardhar Ghodekar, Head - Project ([vidghodekar@tatapower.com](mailto:vidghodekar@tatapower.com)).  
 3. Objections or suggestions, if any, may be filed before the Secretary, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidhyut Niyam Bhawan, Vihuti Khand, Gombi Nagar, Lucknow - 226010; with a copy of the objection(s)/suggestion(s) to Mr. Vidyardhar Ghodekar, Head - Project ([vidghodekar@tatapower.com](mailto:vidghodekar@tatapower.com)) at JKPTL's above mentioned office address, within 30 days from the date of the publication of this notice in the newspaper.  
 4. In case the Hon'ble UPERC allows any subsequent changes resulting in amendment of the license application, JKPTL will publish such changes or the complete notice afresh for soliciting the comments/suggestions of the public.

For Jalpura Khurja Power Transmission Limited  
 Place: Noida, Uttar Pradesh Mr. Tarun Katiyar, Director  
 Date: 11<sup>th</sup> June 2024

**बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda**

**SYMBOLIC POSSESSION NOTICE**  
 (for immovable properties under Rule 8(1))

The Authorized Officer of Bank of Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice being, together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. till date of payment within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrower/Guarantor having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken the symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Rule 8 of the said Act on the date mentioned hereunder. The borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrowers / Guarantor	Details of the Property	Date of Demand Notice	Amt. Due
Borrower- Mrs. Goyal Enterprises and Its Partners Mr. Mayur Kumar Goyal S/o Ashok Kumar Goyal & Mrs. Nandini Agrawal W/o Mr. Mayur Kumar Goyal and its Guarantor- Mr. Ashok Kumar Goyal S/o Mr. Chandra Bhan Goyal & Mrs. Chetna Goyal W/o Mr. Ashok Kumar Goyal	Branch: Mainpuri 1) All the part and parcel of property deposited under Equitable Mortgage of property No 935D, Mauja Jarajai, Pargana, Tehsil & District mainpuri, Area: 0.263 Hects, Property in the name of Shri Mayur Kumar Goyal S/o Shri Ashok Kumar Goyal & Smt Nandani Agrawal W/o Shri Mayur Kumar Goyal, Bounded as: East- khet of ashok kumar, West- link road nagia mugariya, North- khet of ashok & Ram swaroop Etc, South- khet of ashok kumar 2) Equitable Mortgage of property No- 935D, Mauja jarajai, Pargana, Tehsil & district mainpuri, Area: 0.263 Hects, Property in the name of Smt Chetna goyal W/o Ashok kumar goyal, Bounded as: East- Prop of Mrs. V. Chandraratan food pvt ltd, West- link road nagia mugariya, North- Prop of Mayur goyal, South- Mugariya link Road 3) Plot No.98 (Now double storied house constructed No.-253/12) Situated at plot No. 98 (now house constructed) mohalla Narayan Nagar, Uttari chhapatti, City, Tehsil & Dist- Mainpuri, Total Area-251.47 sq. mt, Area of roof of the first floor-102.3 sqmt, Bounded as: East- plot no 99 now house of prem singh, West- plot no 97 now house of Gyan swaroop Agrawal, North- Plot no-91 Now House of Udai Veer singh Rathore, South- Gali 16 feet wide	28-03-2024	1,71,40,474.28 as on 12-03-2024 + Int. & other expenses

Date : 11-06-2024 Authorised Officer

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI**  
 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

T.A. No. 2478/2022 STATE BANK OF INDIA vs MANISH BANERJI AND ORS.

(1) Manish Banerji S/o Mr. Debi Prasad Banerji, 906 Tower 2, Flex Gym Building, Airport Road, Anushakti UAE Non India State, Non India Also at: H No Ac30 Shalimar Bagh Saraswati Vihar North West, Delhi-110088 Also at: Yosh Hospitality LLC ABU Dhabi Non India State, Non India

(2) Ms Pary Developers Pvt. Ltd., B 22, Pocket 9/4 Jasola South, Delhi-110025. Also at: SITE OFFICE: JAYPEE Sports City, SDZ, Solkarian City, Sector-25, Yamuna Expressway, Greater Noida, Uttar Pradesh-201306

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 2,42,77,258/- (Rupees Two Crore Forty Two Lakh Seventy Seven Thousand Two Hundred Fifty Eight only) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Hon'ble PO 24-06-2024 at 10.30 A.M. (for further details kindly visit DRT website [www.drtbun.gov.in](http://www.drtbun.gov.in)) Phone No. 011-23748473. Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Due to ongoing Pandemic Situation, all matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose: All the Advocates / Litigants shall download the "Cisco Webex" application / Software; "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by Registrar/Recovery Officer-Land Recovery Officer-I shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "drt.gov.in" under the Public Notice Head. In any exigency qua that, the Advocates / Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473.

Given under my hand and seal of the Tribunal on this 18<sup>th</sup> April, 2024.  
 by order of this Tribunal Assistant Registrar  
 Respondent may contact under mention phone number for further enquiry.  
 (Ld. Registrar, DRT-I), Ph.: 011-23748473, Email: drt1/delhi-dfs@nic.in

**सार्वजनिक नोटिस**  
 मैं अमित कुमार द्विवेदी पुत्र श्री बदी प्रसाद द्विवेदी पता - फ्लैट नंबर C-124, 11 एकेयू गौर सिटी नोएडा, मेरी प्रॉपर्टी लॉट नं -84 ब्लॉक-A, सेक्टर-12 ग्रेटर नोएडा का मुख्यालय आम जो 12 Oct 2016 का जगदीर सिंह के नाम से है जो कहीं खो गए हैं इनका प्रयोग अवेब होगा

**PUBLIC NOTICE**  
 Notice is hereby given on behalf of Mr. Amit Gogia & Mrs. Archana Gogia to general public that the Sale Deed dated 03/05/2011 in favour of Mr. Amit Gogia & Mrs. Archana Gogia document No 1720 related to the House No.2-M/12 (Front Portion) area measuring 82.5 Sq. Yds. Situated Waka Muga New Township Tehsil Baikhal Distt Faridabad, last page have been lost/ misplaced.  
 Public is being warned not to deal with the documents. Any person dealing with the aforesaid documents would do so at their own risk and responsibility. Owner shall not be liable in any manner whatsoever for any loss incurred by such persons. If anybody found these documents OR notice any misuse of these documents, Concerned Person is requested to communicate at the address given below.  
 Juris NextGen LLP  
 E-56, LGF, Greater Kailash Enclave Part-II, New Delhi-48 #011-42662177, 78,79

**Canara Bank**  
 (An ISO 9001:2015 Certified Organization)  
 सिंडिकेट Syndicate

Whereas, the undersigned being the Authorised officer of the Canara Bank under, the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against account (details of which have been mentioned) calling upon the borrower and also owner of the property/surety to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the receipt of the said notice. The respective Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 rule. The borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank, Respective Branch for the amount mentioned below plus interest thereon along with other expenses.

Sl. No.	Name of the Borrower/Guarantor	Description of the Movable/Immovable Property/ies	Possession Date	Date of Demand Notice & Amount as per Notice
1.	Branch: Rohta (18561) Borrower: Rajneesh Enterprises, Rajneesh Kumar, Praveen Kumar	A House /land Underneath 77.34 Sq Mtrs Le 92.5 Sq Yards Situated In Abadi or Village Raoopur Rohta Pargana Tehsil And District Meerut In The Name of Rajneesh Kumar And Bounded By: East - 60 Feet/house of Shri Munshi, West - 60 Feet/house of Mahmood Son Ismail, North - 18 Feet 6 Inches/rohta Road, South - 11 Feet/house of Ghaisa Son of Abdul Vahid.	07.06.2024	14.03.2024 Rs. 5,58,590.64 + interest & other expenses
2.	Branch: Surajkund (18850) Borrower: Ashok Kumar And Savita	Residential House No 282(oid) Thereafter No 252 And Present No 246 Having Area 35 Sq Yards or 29.26 Sq Mtrs Consisting one Room And Kitchen And Stare Case and Covered Area 15 Sq Mtrs Situated at Mohalla Purva Shekh Lal Meerut In The Name of Ashok Kumar And Bounded By: East - Wall House/abchak House Nanva, West - Wall House/house Tara Chand, North - Wall House/house of Ram Prasad, South- Door House/rasta Aam	07.06.2024	13.03.2024 Rs. 2,63,777.02 + interest & other expenses

Date: 10.06.2024 Place: Meerut Authorized Officer

**SUNDAE**  
 Sundae Capital Advisors Private Limited  
 SEBI Regn. No.: INM000012494  
 404, 4th Floor, Vaibhav Chambers  
 Bandra Kurla Complex, Bandra (East),  
 Mumbai - 400 051, Maharashtra, India  
 Tel. No. +91 96 6785 9191  
 Email: [genesis.delisting@sundaecapital.com](mailto:genesis.delisting@sundaecapital.com)  
 Investor Grievance e-mail id: [grievances.mb@sundaecapital.com](mailto:grievances.mb@sundaecapital.com)  
 Website: [www.sundaecapital.com](http://www.sundaecapital.com)  
 Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma

**Skyline**  
 Skyline Financial Services Private Limited  
 SEBI Regn. No.: INR00003241  
 D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1  
 New Delhi - 110 020, India  
 Tel No.: +91 11 4045 0193-197  
 Fax: +91 11 2681 2683  
 E-mail id: [ippo@skylinerta.com](mailto:ippo@skylinerta.com)  
 Investor Grievance e-mail id: [grievances@skylinerta.com](mailto:grievances@skylinerta.com)  
 Website: <https://www.skylinerta.com>  
 Contact Person: Anuj Rana

For and on behalf of Acquirer to the Offer  
 Sd/-  
 Naresh Garg

Place: New Delhi  
 Date: June 10, 2024

**POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF Genesis Finance Company Limited**  
 (CIN: L65910DL1990PLC040705)  
 Registered Office: 4 MMT/STC Market, Geetajanji, New Delhi, India, 110017, Tel: +91 11 -4218 1244  
 Website: [www.genesisfinance.net](http://www.genesisfinance.net), Email: [genesis599@gmail.com](mailto:genesis599@gmail.com)  
 Contact Person: Mr. Gopal Bisht, Whole-time Director and Chief Financial Officer

This post offer public announcement (the "Post Offer Public Announcement") is being issued by Sundae Capital Advisors Private Limited ("Manager" or "Manager to the Offer") for and on behalf of Naresh Garg, (referred to as the "Acquirer") Promoter of Genesis Finance Company Limited, (the "Company") to the Public Shareholders as defined under Regulation 21(i)(t) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended, ("SEBI Delisting Regulations") (as defined below) ("Public Shareholders") of Genesis Finance Company Limited (the "Company") in respect of the acquisition of the fully paid up equity shares of the Company with a face value Rs.10 (Indian Rupees Ten) each ("Equity Shares") that are held by the Public Shareholders and consequent voluntary delisting of the Equity Shares from Metropolitan Stock Exchange of India Limited ("MSEI") ("Stock Exchange") pursuant to Regulation 17(4) and other applicable provisions of SEBI Delisting Regulations ("Delisting Offer"). This Post Offer Public Announcement is in continuation to and should be read in conjunction with:  
 a) Initial Public Announcement made by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer to the Stock Exchange dated September 16, 2023 (the "IPA");  
 b) The Detailed Public Announcement in connection with the Delisting Offer, published on May 23, 2024 in (i) Business Standard (English - all editions); (ii) Business Standard (Hindi - all editions); and (iii) Mumbai Lakhshdeep (Marathi - Mumbai Edition) (the "DPA"); and  
 c) The Letter of Offer dated May 27, 2024 in connection with the Delisting Offer ("Letter of Offer"); and  
 d) The Public Notice dated May 31, 2024 ("Public Notice")

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Public Announcement shall have the same meaning assigned to them as in the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer.

The Acquirer, along with other members of promoter and promoter group of the Company, issued the Detailed Public Announcement to acquire up to 1,56,80,296 (One Crore Fifty Six Lakh Eighty Thousand Two Hundred Ninety Six) Equity Shares ("Offer Shares") representing 33.80% of the total issued and paid up Equity Shares of the Company from the Public Shareholders pursuant to Part B of Chapter III read with Chapter IV and other applicable provisions of the SEBI Delisting Regulations and other applicable terms of the Detailed Public Announcement and Letter of Offer. The Public Shareholders holding Equity Shares of the Company were invited to submit their Bids pursuant to the Reverse Book Building process ("RBBP") as prescribed in the SEBI Delisting Regulations through the Stock Exchange Mechanism during the Offer Period (i.e. from June 04, 2024 to June 07, 2024), in accordance with the SEBI Delisting Regulations. The designated stock exchange for the Delisting Offer is Metropolitan Stock Exchange of India Limited, being the stock exchange where the Equity Shares of the Company are listed. Further, National Stock Exchange of India Limited's Acquisition Window has been used to facilitate placing of sell orders by shareholders who wished to tender Equity Shares in the Offer.

1. **DISCOVERED PRICE**  
 In terms of Regulation 22(1) of SEBI Delisting Regulations, the acquirer shall be bound to accept the equity shares tendered or offered in the delisting offer, if the discovered price determined through the reverse book building process is equal to the floor price or the indicative price, if any, offered by the acquirer. Since, the discovered price determined through Reverse Book Building process, that is, Rs. 25.40 (Rupees Twenty Five and Paise Forty only) ("Discovered Price"), equals to the floor price, that is, Rs. 25.40 (Rupees Twenty Five and Paise Forty only) ("Floor Price"), offered by the Acquirer, therefore, in terms of Regulation 22 and other applicable provisions of the SEBI Delisting Regulations

